

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 मार्च 2020—चैत्र 3, शक 1942

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 मार्च, 2020 ( चैत्र 3, 1942 )

क्र. 4915-म.प्र.वि.स.-15-विधान-2020.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 23 मार्च, 2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एतद्वारा इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ।

भोपाल :  
दिनांक 23 मार्च, 2020.

लाल जी टंडन  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.”.

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.